



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23—सितम्बर 29, 2006 (आश्विन 1, 1928)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23—SEPTEMBER 29, 2006 (ASVINA 1, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के और मंत्रालयों उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ सं.	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	825	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	895	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2491
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	545
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	1301	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6995
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	623
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	Page No. 825	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	895	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	2491
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1301	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	545
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	6995
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	623
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं.-97-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष 2006 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :-

उत्तम जीवन रक्षा पदक

1. श्री कुलदीप सिंह, दिल्ली
2. श्री हरामनदीप सिंह, पंजाब
3. मास्टर महेश कुमार, उत्तरांचल

जीवन रक्षा पदक

1. श्री सीमान्त शङ्कीया, असम
2. श्री सोनू राम, हिमाचल प्रदेश
3. श्री बलवान सिंह, जम्मू व कश्मीर
4. श्री बिजु के., केरल
5. श्री अरूण सी. कुर्यन, केरल
6. श्रीमती शकुन्ताला देवी श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश
7. श्रीमती शिवाजी बाला ओव्हाल, महाराष्ट्र
8. श्री मारोती, महाराष्ट्र
9. सुश्री हुईरम रिश्मा देवी, मणिपुर
10. मास्टर थड्डुलियाना (मरणोपरान्त), मिजोरम
11. श्री फनाइ लालहुपल्याना (मरणोपरान्त), मिजोरम
12. मास्टर सी. लालरेमसांगा (मरणोपरान्त), मिजोरम
13. श्री घनश्याम भट्ट, उत्तरांचल
14. श्री रणधीर कुमार ठाकुर (मरणोपरान्त), बिहार
15. श्री कपिल देव, उत्तर प्रदेश
16. श्री पी. गुणालन, तमिलनाडु
17. श्री अनिल कुमार, नेपाल

18. श्री कामी लामा, नेपाल
19. श्री श्रीधोश एम., केरल
20. श्री रबीन्द्र के. साहू, उड़ीसा
21. श्री सी. सुरेन्द्र, आन्ध्र प्रदेश
22. श्री इरप्पा जी. यल्लाट्टी, कर्नाटक
23. श्री संजय कुमार बर्लोटिया, राजस्थान
24. मास्टर लक्ष्मण, छत्तीसगढ़
25. मास्टर पुतीजुंगशी, नागालैंड
26. मास्टर रजत अधरिया, छत्तीसगढ़
27. मास्टर सरथ बाबू, केरल
28. मास्टर डेवीडसन डी., केरल
29. मास्टर नियास ई., केरल
30. मास्टर फ्रैंकलिन के., केरल
31. मास्टर सन्मेश महेश कल्याणपुर, महाराष्ट्र
32. मास्टर नेलसन करम, मणिपुर
33. कुमारी सिद्धलीन मावटील्लुप, मेघालय
34. मास्टर बलराम निषाद, छत्तीसगढ़
35. मास्टर एम. मारिया लियो शाजन, तमिलनाडु
36. मास्टर शिबु टी. (मरणोपरान्त), केरल
37. कुमारी दिव्या टी. वी., केरल
38. मास्टर मुकेश कुमार तैवर, मध्य प्रदेश

बरूण मित्रा  
निदेशक

## वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 सितम्बर 2006

सं. 1/1/2006-समिति--सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का दिनांक 26 जून, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निर्मांकित सम्मिलित होंगे :--

1. भारत के माननीय प्रधान मंत्री  
(डॉ. मनमोहन सिंह)  
अध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय  
प्रधान मंत्री का कार्यालय  
साउथ ब्लॉक  
नई दिल्ली-110011
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  
और पृथ्वी विज्ञान  
(श्री कपिल सिब्बल)  
उपाध्यक्ष, सी एस आई आर  
उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय  
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग  
नई दिल्ली-110001
3. वित्त मंत्री  
(श्री पी. चिदम्बरम)  
नार्थ ब्लॉक  
नई दिल्ली-110001
4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  
(श्री कमल नाथ)  
औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग  
कमरा नं. 45  
उद्योग भवन  
नई दिल्ली-110011
5. अध्यक्ष  
सीएसआईआर सलाहकार बोर्ड  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग  
नई दिल्ली-110001
6. प्रो. वी. एल. चोपड़ा  
सदस्य, (विज्ञान, पर्यावरण एवं कृषि)  
योजना आयोग  
योजना भवन, संसद मार्ग  
नई दिल्ली-110001
7. डॉ. आर. चिदम्बरम  
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  
319, विज्ञान भवन एनेक्सी

अध्यक्ष

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

मौलाना आजाद रोड  
नई दिल्ली-110011

8. प्रो. सी.एन.आर.राव  
अध्यक्ष, प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार  
परिषद अध्यक्ष, सीपीएमयू लाइन्स पॉलिंग  
जे.एन.सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च  
जाकुर  
बैंगलोर-560064
9. प्रो. सुखदेव थोरेट  
अध्यक्ष  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली-110002
10. सुश्री किरण मजूमदार शॉ  
20वां केएम होसूर रोड  
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी  
बैंगलोर-560100
11. श्री एन. आर. नारायण मूर्ति  
मुख्य परामर्शदाता  
इंफोसिस टेक्नोलॉजीस लि.  
होसूर रोड  
थर्ड क्रॉस, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी  
बैंगलोर-561229
12. श्री बी. मुत्थुरमन  
प्रबंध निदेशक  
टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.  
जमशेदपुर-831001
13. श्री के.बी. कामथ  
प्रबंधक निदेशक तथा सीईओ  
आईसीआईसीआई बैंक लि.  
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स,  
बान्द्र कुरला कॉम्प्लेक्स,  
मुम्बई-400051
14. प्रो. पी. बलराम  
निदेशक  
भारतीय विज्ञान संस्थान  
बैंगलोर-560012
15. प्रो. एम.एम. शर्मा  
पूर्व निदेशक  
रसायन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विभाग  
2/3, जसवन्त बाग  
ए के बालेली के पीछे  
वी एन पूर्व मार्ग  
मुम्बई-400071

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

16.	श्रीमति रेणुका विश्वनाथन सचिव ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय कृषि भवन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली-110001	सदस्य	24.	डॉ. एस.आर. शेट्टे निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा-403004	सदस्य
17.	श्री डी.एस. माथुर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-110003	सदस्य	25.	श्री अशोक पुरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. बीएचईएल हाऊस, सीरी फोर्ट नई दिल्ली-110049	सदस्य
18.	श्री प्रसन्ना होट्ट सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 149-ए, निर्माण भवन नई दिल्ली-110011	सदस्य	26.	डॉ. (श्रीमती) स्वाती ए. पीरामल मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी निकोलस पीरामल इन्डिया लि. 100, सेंटर प्वाइंट, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, परेल, पी.ओ. बॉक्स नं. 6011 मुम्बई-400012	सदस्य
19.	श्री ए.के. दुआ सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग कमरा नं. 157 उद्योग भवन नई दिल्ली-110011	सदस्य	27.	डॉ. दीपक पेंटल कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली-110007	सदस्य
20.	श्री रमेश चन्द्र पांडा सचिव भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग कमरा नं. 178, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011	सदस्य	28.	डॉ. विजय भाटकर अध्यक्ष, ईटीएच अनुसंधान प्रयोगशाला 1, फायर रोड, के.वी. कैम्पस, पुणे-411040	सदस्य
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 (घ) के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के निर्मांकित सदस्य शासी निकाय के सदस्य रहने तक सीएसआईआर सोसाइटी के सदस्य रहेंगे:			29.	प्रो. आर. कुमार फेलो, जे.एन. सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर-560012	सदस्य
21.	डॉ. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन 2, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001	पदेन-सचिव	30.	डॉ. टी. रामासामी सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरोली रोड नई दिल्ली-110016	सदस्य
22.	डॉ. आदर्श किशोर सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001	सदस्य	31.	डॉ. एम.के. भान सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ब्लॉक-2, 7वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
23.	डॉ. लालजी सिंह निदेशक, कोशिकीय और अणु जीवविज्ञान केन्द्र उम्पल रोड हैदराबाद-500007 (आंध्र प्रदेश)	सदस्य			

**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(डाक विभाग)**

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 11 सितंबर 2006

**संकल्प**

संख्या 17011-1/2005-रा.भा. भारत सरकार, एतद्द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	अध्यक्ष
माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

**गैर-सरकारी सदस्य**

**संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित**

1. श्री बी. विनोद कुमार, लोक सभा - संसद सदस्य	सदस्य
2. श्री सर्वानन्द सोनोवाल, लोक सभा - संसद सदस्य	सदस्य
3. श्री धर्मपाल सभ्रवाल, राज्य सभा - संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री शरद अनंतराव जोशी, राज्य सभा - संसद सदस्य	सदस्य

**संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित**

5. डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा, संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6. प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय, संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य

**केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित**

7. श्री अरविन्द यादव, संगठन मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, बी-31, जवाहर पार्क, खानपुर, नई दिल्ली-110 062	सदस्य
---	-------

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ द्वारा नामित

8. श्री जे.एस. रामदास, प्रधान सचिव,  
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, टी नगर,  
चैन्नई- 600 017 सदस्य

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा नामित

9. डॉ. महीप सिंह सदस्य  
एच-108, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली -110 026
10. श्री हिमांशु जोशी सदस्य  
7/सी-2, हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स,  
मयूर विहार, फेज-एक, दिल्ली- 110 091
11. डॉ. सीतेश आलोक सदस्य  
प्राचार्य आवास, इन्द्रप्रस्थ कॉलेज,  
दिल्ली - 110 054
12. श्रीमती चित्रा मुद्गल सदस्य  
बी-105, वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार,  
विस्तार-एक, दिल्ली- 110 091

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. डा. शिववंश पाण्डेय, सदस्य  
लीलाधाम, मकान सं. 307,  
पथ संख्या 3 जी, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी,  
पटना-800013.
14. श्री वकील प्रसाद गुप्ता, सदस्य  
पुस्तक प्लाज़ा, ओरएच-138,  
एम.आय.डी.सी. शाहूनगर, चिंचवड़,  
पुणे-411019.
15. श्री संदेश यशवंत पाटील, सदस्य  
मु.पो. अट्रावल, तालुका-यावल,  
जलगांव-425314, महाराष्ट्र

**सरकारी सदस्य**

16.	सचिव (डाक)	सदस्य
17.	सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
18.	सदस्य (कार्मिक)	सदस्य
19.	सदस्य (विकास)	सदस्य
20.	सदस्य (प्रचालन एवं प्रबंधन)	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
23.	प्रधान वरि. उप महानिदेशक (पीओ एण्ड आई)	सदस्य
24.	सचिव (डाक सेवा बोर्ड)	सदस्य
25.	उप महानिदेशक (कार्मिक)	सदस्य
26.	उप महानिदेशक (स्थापना)	सदस्य
27.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली	सदस्य
28.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मध्य प्रदेश	सदस्य
29.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र	सदस्य
30.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, तमिलनाडु	सदस्य
31.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर-पूर्व	सदस्य
32.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल	सदस्य
33.	निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद	सदस्य
34.	मुख्य महाप्रबंधक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
35.	मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
36.	निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

**कार्य**

समिति का काम संविधान, राजभाषा अधिनियम और नियमों में दिए गए राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीति संबंधी निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों और साथ ही डाक विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार को सलाह देना है।

**कार्यकाल**

समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष का होगा :

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे; और
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

**यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :**

(क) समिति में नामित सांसदों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86- रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

**सामान्य**

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

अंजु दासगुप्ता  
प्रधान वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीओ एण्ड आई)

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th September 2006

No. 97-Pres/2006 - The President is pleased to approve the conferment of following Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2006 on the undermentioned persons:-

**Uttam Jeevan Raksha Padak**

1. Shri Kuldeep Singh, Delhi
2. Shri Haramandip Singh, Punjab
3. Master Mahesh Kumar, Uttaranchal

**Jeevan Raksha Padak**

1. Shri Simanta Saikia, Assam
2. Shri Sonu Ram, Himachal Pradesh
3. Shri Balwan Singh, Jammu & Kashmir
4. Shri Shiju K., Kerala
5. Shri Arun. C. Kurian, Kerala
6. Smt. Shakuntla Devi Shrivastava, Madhya Pradesh
7. Shri Shivaji Bala Ovhal, Maharashtra
8. Shri Maroti, Maharashtra
9. Ms. Huirem Rishma Devi, Manipur
10. Master Thanghuliana, (Posthumous), Mizoram
11. Shri Fanai Lalthuapzauva (Posthumous), Mizoram
12. Master C. Lalremsanga (Posthumous), Mizoram
13. Shri Ghanshyam Bhatt, Uttaranchal
14. Shri Randhir Kumar Thakur (Posthumous), Bihar
15. Shri Kapil Deo, Uttar Pradesh
16. Shri P. Gunalan, Tamil Nadu
17. Shri Anil Kumar, Nepal
18. Shri Kami Lama, Nepal
19. Shri Shreedhosh M., Kerala
20. Shri Rabindra K. Sahoo, Orissa
21. Shri C. Surendar, Andhra Pradesh
22. Shri Irappa G. Yallatti, Karnataka
23. Shri Sanjay Kumar Bhalothia, Rajasthan

24. Master Laxman, Chhattisgarh
25. Master Putijungshi, Nagaland
26. Master Rajat Agharia, Chhattisgarh
27. Master Sarath Babu, Kerala
28. Master Davidson D., Kerala
29. Master Niyas. E, Kerala
30. Master Franklin K., Kerala
31. Master Sanmesh Mahesh Kalyanpur, Maharashtra
32. Master Nelson Karam, Manipur
33. Kumari Seidalyne Mawtyllup, Meghalaya
34. Master Balram Nishad, Chhattisgarh
35. Master M. Maria Leo Shajan, Tamil Nadu
36. Master Shibu T., (Posthumous), Kerala
37. Kumari Divya T.V., Kerala
38. Master Mukesh Kumar Tanwar, Madhya Pradesh

BARUN MITRA  
Director

---

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110 001, the 12th September 2006

No. 1/1/2006-Cte.—

It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Council of Scientific & Industrial Research Society has been reconstituted with effect from 26<sup>th</sup> June, 2006 for a period of three years by the Government of India and shall consist of the following :

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Hon'ble Prime Minister of India<br>(Dr. Manmohan Singh)<br>Office of the President, CSIR<br>Prime Minister's Office<br>South Block<br>New Delhi – 110 011   | President        |
| 2. | Minister for Science & Technology and<br>Earth Sciences<br>(Shri Kapil Sibal)<br>Vice President, CSIR<br>Office the Vice-President, CSIR<br>Council of Scientific and Industrial Research<br>Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg<br>New Delhi – 110 001 | Vice - President |
| 3. | Minister of Finance<br>(Shri P. Chidambaram)<br>North Block<br>New Delhi – 110 001  | Member           |
| 4. | Minister of Commerce & Industry<br>(Shri Kamal Nath)<br>Department of Industrial Policy & Promotion<br>Room No. 45<br>Udyog Bhawan<br>New Delhi 110011  | Member           |
| 5. | Chairman<br>CSIR Advisory Board<br>Anusandhan Bhawan<br>2, Rafi Marg<br>New Delhi – 110 001   | Member           |

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 6.  | Prof. V.L. Chopra<br>Member (Science. Env. & Agri.)<br>Planning Commission<br>Yojana Bhavan, Sansad Marg<br>New Delhi – 110 001   | Member |
| 7.  | Dr. R. Chidambaram<br>Principal Scientific Adviser to the GOI<br>319, Vigyan Bhavan Annexe<br>Maulana Azad Road<br>New Delhi – 110 011  | Member |
| 8.  | Prof. C.N.R. Rao<br>Chairman, Science Advisory Council to PM<br>Chairman, CPMU & Linus Pauling<br>JN Centre for Advanced Scientific Research<br>Jakkur<br>Bangalore – 560 064 | Member |
| 9.  | Prof. Sukhdeo Thorat<br>Chairman<br>University Grants Commission<br>Bahadur Shah Zafar Marg<br>New Delhi – 110 002  | Member |
| 10. | Ms. Kiran Mazumdar Shaw<br>20th KM Hosur Road<br>Electronics City<br>Bangalore – 560 100  | Member |
| 11. | Shri N.R. Narayana Murthy<br>Chief Mentor<br>Infosys Technologies Ltd.<br>Hosur Road<br>3rd Cross, Electronics City<br>Bangalore – 561 229                                    | Member |
| 12. | Shri B. Muthuraman<br>Managing Director<br>Tata Iron & Steel Company Ltd.<br>Jamshedpur – 831 001   | Member |
| 13. | Shri K.V. Kamath<br>Managing Director & CEO<br>ICICI Bank Ltd.<br>ICICI Bank Towers<br>Bandra Kurla Complex<br>Mumbai – 400 051   | Member |

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 14. | Prof. P. Balaram<br>Director<br>Indian Institute of Science<br>Bangalore – 560 012  | Member |
| 15. | Prof. M.M. Sharma<br>Formerly Director<br>University Department of Chemical Technology<br>2/3, Jaswant Bagh<br>Behind AK Barally's<br>VN Purav Marg<br>Mumbai – 400 071   | Member |
| 16. | Mrs. Renuka Vishwanathan<br>Secretary<br>Department of Rural Development<br>Ministry of Agriculture<br>Krishi Bhavan<br>Dr. Rajendra Prasad Road<br>New Delhi – 110 001   | Member |
| 17. | Shri D.S. Mathur<br>Secretary<br>Department of Information Technology<br>Electronics Niketan<br>6, CGO Complex, Lodi Road<br>New Delhi – 110 003  | Member |
| 18. | Shri Prasanna Hota<br>Secretary (Health)<br>Department of Health & Family Welfare<br>149-A, Nirman Bhawan<br>New Delhi – 110 011  | Member |
| 19. | Shri A.K. Dua<br>Secretary<br>Department of Industrial Policy & Promotion<br>Room No. 157<br>Udyog Bhawan<br>New Delhi 110011   | Member |
| 20. | Shri Ramesh Chandra Panda<br>Secretary<br>Heavy Industries & Public Enterprises<br>Ministry of Heavy Industries and<br>Public Enterprises<br>Department of Heavy Industry<br>Room No. 178, Udyog Bhawan<br>New Delhi - 110 0011 | Member |

The following members of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research shall be members of the CSIR Society for a period they are members of the Governing Body in accordance with Rule 3 (d) of the Rules & Regulations of the Council of Scientific & Industrial Research :

- |     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 21. | Dr. R.A. Mashelkar<br>Director General<br>Council of Scientific & Industrial Research<br>Anusandhan Bhawan<br>2, Rafi Marg<br>New Delhi – 110 001  | Ex-Officio Secretary |
| 22. | Dr. Adarsh Kishore<br>Secretary (Expenditure)<br>Ministry of Finance<br>North Block<br>New Delhi – 110 001   | Member               |
| 23. | Dr. Lalji Singh<br>Director<br>Centre for Cellular & Molecular Biology<br>Uppal Road<br>Hyderabad – 500 007 (AP)   | Member               |
| 24. | Dr. S.R. Shetye<br>Director<br>National Institute of Oceanography<br>Dona Paula<br>Goa – 403 004   | Member               |
| 25. | Shri Ashok Puri<br>Chairman & Managing Director<br>Bharat Heavy Electricals Limited<br>BHEL House, Sirifort<br>New Delhi – 110 049   | Member               |
| 26. | Dr. (Mrs.) Swati A. Piramal<br>Chief Scientific Officer<br>Nicholas Piramal India Limited<br>100, Center Point<br>Dr. Baba Saheb Ambedkar Road<br>Parel, P.O. Box No. 6011<br>Mumbai – 400 012 | Member               |
| 27. | Dr. Deepak Pental<br>Vice Chancellor<br>University of Delhi<br>University Road<br>Delhi -110 007   | Member               |

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 28. | Dr. Vijay Bhatkar<br>Chairman<br>ETH Research Laboratory<br>1, Phyre Road, K.V. Campus<br>Pune – 411 040                            | Member |
|     |   |        |
| 29. | Prof. R. Kumar<br>Fellow<br>JN Centre for Advanced Scientific Research<br>Indian Institute of Science<br>Bangalore – 560 012        | Member |
|     |   |        |
| 30. | Dr. T. Ramasami<br>Secretary<br>Department of Science & Technology<br>Technology Bhawan<br>New Mehrauli Road<br>New Delhi – 110 016 | Member |
|     |   |        |
| 31. | Dr. M.K. Bhan<br>Secretary<br>Department of Biotechnology<br>Block 2, 7th Floor, CGO Complex<br>Lodi Road<br>New Delhi – 110 003    | Member |

**NIKHILESH JHA**  
Joint Secy. (Admn.)

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT  
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 11th September 2006

**RESOLUTION**

No. 17011-1/2005-OL. The Govt. of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti in the Department of Posts, Ministry of Communication and IT as under :-

Hon'ble Minister of Communications & IT

Chairman

Hon'ble Minister of State for Communications & IT

Vice-Chairman.

**Non-Official Members**

**Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Shri B. Vinod Kumar, MP, Lok Sabha         | Member |
| 2. | Shri Saryanand Sonowal, MP, Lok Sabha      | Member |
| 3. | Shri Dharmpal Sabharwal, MP, Rajya Sabha   | Member |
| 4. | Shri Sarad Anantrao Joshi, MP, Rajya Sabha | Member |

**Nominated by Parliamentary Committee on Official Language**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 5. | Dr. Lakshmi Narayan Sharma, MP, Rajya Sabha  | Member |
| 6. | Prof. Alka Balram Kshatriya, MP, Rajya Sabha | Member |

**Central Secretariat Hindi Parishad**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 7. | Shri Aravind Yadav, Organizational Secretary,<br>Kendriya Sachivalay Hindi Parishad, B-31,<br>Jawahar Park, Khanpur, New Delhi- 110 062 | Member |
|----|---|--------|

**Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 8. | Shri J. S. Ramdas, Pradhan Sachiv,<br>Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha<br>T-Nagar, Chennai- 600 017 | Member |
|----|---|--------|

**Nominated by Honble Minister of C&IT**

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 9.  | Dr. Maheep Singh,<br>H-108, Shivaji Park, New Delhi- 110 026  | Member |
| 10. | Shri Himanshu Joshi,<br>7/C-2, Hindustan Times Apartments,<br>Mayur Vihar, Phase-1, Delhi – 110 091 | Member |
| 11. | Dr. Sitesh Alok,<br>Pracharya Aawas, Indraprasth College,<br>Delhi – 110 054                        | Member |
| 12. | Smt. Chitra Mudgal,<br>B-105, Vardhaman Apartments,<br>Mayur Vihar, Vistar-1, Delhi-110 091         | Member |

**Nominated by Official Language Department**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 13. | Dr. Shivvansh Pandey,<br>Leeladham, House No: 307, Road No: 3-G,<br>New Patliputra Colony, Patna-800013. | Member |
| 14. | Shri Vakil Prasad Gupta,<br>Pustak Plaza, RH-138, MIDC Shahoo Nagar,<br>Chinchwad, Pune-411019           | Member |
| 15. | Shri Sandesh Yashwant Patil,<br>Mukhya P.O., Atraval, Taluka Yaval,<br>Jalgaon-425314, Maharashtra.      | Member |

**Official Members**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 16. | Secretary (Posts)                      | Member |
| 17. | Secretary, Deptt. of Official Language | Member |

18.	Member (Personnel)	Member
19.	Member (Development)	Member
20.	Member (Operations and Management)	Member
21.	Joint Secretary and Financial Advisor	Member
22.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
23.	Principal Sr. Deputy Director General (PO&I)	Member
24.	Secretary (Postal Services Board)	Member
25.	Deputy Director General (Personnel)	Member
26.	Deputy Director General (Establishment)	Member
27.	Chief Post Master General, Delhi	Member
28.	Chief Post Master General, Madhya Pradesh	Member
29.	Chief Post Master General, Maharashtra	Member
30.	Chief Post Master General, Tamil Nadu	Member
31.	Chief Post Master General, North East	Member
32.	Chief Post Master General, West Bengal	Member
33.	Director, Postal Staff College, Ghaziabad	Member
34.	Chief General Manager, Directorate of Postal Life Insurance, New Delhi	Member
35.	Chief General Manager, Business Development Directorate, New Delhi	Member
36.	Director (Official Language)	Member Secretary

### **Functions**

The Functions of the Samiti will be to render advice to the Govt. in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act and rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the

Department of Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Department of Posts.

### **Tenure**

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution provided that:-

- (a) A member, who is a Member of Parliament, will cease to be a member of Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and
- (c) A member nominated in a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member, shall hold office for the residual term.

### **TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES**

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954". Amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-O.L. (A-2) dated 22<sup>nd</sup> January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

### **GENERAL**

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

### **ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANJU DASGUPTA

Principal Sr. Deputy Director General (PO & I)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006